



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक ३]

सोमवार, फेब्रुवारी २५, २०१९/फाल्गुन ६, शके १९४०

[पृष्ठ २२, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकार्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांमधील इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001 dated the 18th February 2018.
29 Magha, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/MT-LA/2019 (1).— In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434/MT-LA/2013 (1) dated 21st November, 2013, the Election Commission of India hereby appoints, in consultation with the State Government of Maharashtra, the officers of the Government of Maharashtra as specified in column 2 of the table below as the Returning Officer of the Assembly Constituencies In the State of Maharashtra as specified in column 1 of the said table :—

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
1 - Akkalkuwa (ST)	Sub Divisional Officer, Taloda
2 - Shahada (ST)	Sub Divisional Officer, Shahada
3 - Nandurbar (ST)	Sub Divisional Officer, Nandurbar
4 - Nawapur (ST)	District Supply Officer, Nandurbar
5 - Sakri (ST)	Deputy Collector (EGS). Dhule
6 - Dhule Rural	Sub Divisional Officer, Dhule Division Dhule
7 - Dhule City	Deputy Collector (Land Acquisition), No.I, Dhule
8 - Sindkheda	Deputy Collector (Land Acquisition), (MIP), Dhule
9 - Shirpur (ST)	Sub Divisional Officer, Shirpur
10 - Chopda (ST)	Deputy Collector (Resettlement), Jalgaon
11- Raver	Sub Divisional Officer, Faizpur
12 - Bhusawal (SC)	Sub Divisional Officer, Bhusawal
13 - Jalgaon City	Sub Divisional Officer, Jalgaon
14 - Jalgaon Rural	Deputy Collector (Land Acquisition No. 1) Upper Tapi Project (Hatnur), Jalgaon.
15 - Amalner	Sub Divisional Officer, Amalner
16 - Erandol	Sub Divisional Officer, Erandol
17 - Chalisgaon	Sub Divisional Officer, Chalisgaon
18 - Pachora	Sub Divisional Officer, Pachora
19 - Jamner	Deputy Collector (EGS), Jalgaon
20 - Muktainagar	District Supply Officer, Jalgaon
21 - Malkapur	Sub Divisional Officer, Malkapur
22 - Buldhana	Sub Divisional Officer, Buldhana
23 - Chikhli	Special Land Acquisition Officer (M.P.), Buldhana
24 - Sindkhed Raja	Sub Divisional Officer, Sindkhed Raja
25 - Mehkar (SC)	Sub Divisional Officer, Mehkar
26 - Khamgaon	Sub Divisional Officer, Khamgaon
27 - Jalgaon (Jamod)	Sub Divisional Officer, Jalgaon (Jamod)
28 - Akot	Sub Divisional Officer, Akot
29 - Balapur	Sub Divisional Officer, Balapur
30 - Akola West	Deputy Collector (Revenue), Akola
31 - Akola East	Sub Divisional Officer, Akola
32 - Murtizapur (SC)	Sub Divisional Officer, Murtizapur
33 - Risod	Sub Divisional Officer, Washim

TABLE-CON.

1	2
34 - Washim (SC)	Sub Divisional Officer, Mangarulpir
35 - Karanja	Sub Divisional Officer, Karanja
36 - Dhamangaon Railway	Sub Divisional Officer, Chandur Railway
37 - Badnera	Deputy Collector (Revenue), Amravati
38 - Amravati	Sub Divisional Officer, Amravati
39 - Teosa	Sub Divisional Officer, Teosa-Bhatkuli
40 - Daryapur (SC)	Sub Divisional Officer, Daryapur
41 - Melghat (ST)	Sub Divisional Officer, Dharni
42 - Achalpur	Sub Divisional Officer, Achalpur
43 - Morshi	Sub Divisional Officer, Morshi
44 - Arvi	Sub Divisional Officer, Arvi
45 - Deoli	Land Acquisition Officer (General), Wardha
46 - Hinganghat	Sub Divisional Officer, Hinganghat
47 - Wardha	Sub Divisional Officer, Wardha
48 - Katol	Sub Divisional Officer, Katol
49 - Savner	Sub Divisional Officer, Savner
50 - Hingna	Sub Divisional Officer, Nagpur Rural
51 - Umred (SC)	Sub Divisional Officer, Umred
52 - Nagpur South West	Sub Divisional Officer, Nagpur City
53 - Nagpur South	Deputy Collector (Land Acquisition), Pench, Project No.2, Nagpur
54 - Nagpur East	Deputy Collector (Land Acquisition), Kanholi Nala Project, Nagpur
55 - Nagpur Central	Deputy Collector (Land Acquisition), V.I.D.C No. 1, Nagpur
56 - Nagpur West	Deputy Collector (Land Acquisition), Pench Project No.1, Nagpur
57 - Nagpur North (SC)	Deputy Collector (Revenue), Nagpur
58 - Kamthi	Sub Divisional Officer, Mouda
59 - Ramtek	Sub Divisional Officer, Ramtek
60 - Tumsar	Sub Divisional Officer, Tumsar
61 - Bhandara (SC)	Assistant Collector, Bhandara Sub Division, Dist. Bhandara
62 - Sakoli	Sub Divisional Officer, Sakoli
63 - Arjuni Morgaon (SC)	Deputy Collector (General), Gondiya
64 - Tirora	Sub Divisional Officer, Tirora
65 - Gondiya	Sub Divisional Officer, Gondiya
66 - Amgaon (ST)	Sub Divisional Officer, Deori
67 - Armori (ST)	Sub Divisional Officer, Desaiganj
68 - Gadchiroli (ST)	Sub Divisional Officer, Gadchiroli

TABLE-CON.

1	2
69 - Aheri (ST)	Assistant Collector, Aheri Sub Division, Dist. Gadchiroli
70 - Rajura	Assistant Collector, Rajura Sub Division, Dist. Chandrapur
71 - Chandrapur (SC)	Sub Divisional Officer, Chandrapur
72 - Ballarpur	Sub Divisional Officer, Mul
73 - Brahmapuri	Sub Divisional Officer, Brahmapuri
74 - Chimur	Sub Divisional Officer, Chimur
75 - Warora	Sub Divisional Officer, Warora
76 - Wani	Sub Divisional Officer, Wani
77 - Ralegaon (ST)	Sub Divisional Officer, Ralegaon
78 - Yavatmal	Sub Divisional Officer, Yavatmal
79 - Digras	Sub Divisional Officer, Darwha
80 - Arni (ST)	Sub Divisional Officer, Kelapur
81 - Pusad	Sub Divisional Officer, Pusad
82 - Umardhed (SC)	Sub Divisional Officer, Umardhed
83 - Kinwat	Assistant Collector, Kinwat Sub Division, Dist. Nanded
84 - Hadgaon	Sub Divisional Officer, Hadgaon
85 - Bhokar	Sub Divisional Officer, Bhokar
86 - Nanded North	Deputy Collector (EGS), Nanded
87 —Nanded South	Sub Divisional Officer, Nanded
88 - Loha	Sub Divisional Officer, Kandhar
89 - Naigaon	Sub Divisional Officer, Dharmabad
90 - Deglur (SC)	Sub Divisional Officer, Biloli
91 - Mukhed	Sub Divisional Officer, Deglur
92 - Basmath	Sub Divisional Officer, Basmath
93 - Kalamnuri	Sub Divisional Officer, Kalamnuri
94 - Hingoli	Sub Divisional Officer, Hingoli
95 - Jintur	Sub Divisional Officer, Sailu
96 - Parbhani	Sub Divisional Officer, Parbhani
97 - Gangakhed	Sub Divisional Officer, Gangakhed
98 - Pathri	Sub Divisional Officer, Pathri
99 - Partur	Sub Divisional Officer, Partur
100 - Ghansawangi	Sub Divisional Officer, Ambad
101 - Jalna	Sub Divisional Officer, Jalna
102 - Badnapur (SC)	Deputy Collector and Land Acquisition Officer, (MIW), Jalna
103 - Bhokardan	Sub Divisional Officer, Bhokardan

TABLE-CON.

1	2
104 - Sillod	Sub Divisional Officer, Sillod
105 - Kannad	Sub Divisional Officer, Kannad
106 - Phulambri	District Supply Officer, Aurangabad
107 - Aurangabad Central	Sub Divisional Officer, Aurangabad
108 - Aurangabad West (SC)	Deputy Collector (EGS) Collector Office, Aurangabad
109 - Aurangabad East	District Rehabilitation Officer, Aurangabad
110 - Paithan	Sub Divisional Officer, Paithan-Phulambri
111 - Gangapur	Special Land Acquisition Officer, Aurangabad
112 - Vaijapur	Sub Divisional Officer, Vaijapur
113 - Nandgaon	Dy. Collector (EGS), Nashik
114 - Malegaon Central	Sub Divisional Officer, Malegaon
115 - Malegaon Outer	Deputy Collector (Land Acquisition), No.2, Nashik
116 - Baglan (ST)	Sub Divisional Officer, Baglan
117 - Kalwan (ST)	Assistant Collector, Kalwan Sub Division, Dist. Nashik
118 - Chandvad	Sub Divisional Officer, Chandvad
119 - Yevla	Sub Divisional Officer, Yevla
120 - Sinnar	Deputy Collector (Acquisition) Vaitarana Hydro-Electric project, Nashik
121 - Niphad	Sub Divisional Officer, Niphad
122 - Dindori (ST)	Sub Divisional Officer, Dindori
123 - Nashik East	Deputy Collector (Admn.), Nashik
124 - Nashik Central	Assistant Collector, Nashik Sub Division, Dist. Nashik
125 - Nashik West	District Resettlement Officer, Nashik
126 - Deolali (SC)	Special Land Acquisition Officer, (N.H.P), Nashik
127 - Igatpuri (ST)	Sub Divisional Officer, Igatpuri
128 - Dahanu (ST)	Assistant Collector, Dahanu Sub Division, Dist, Palghar
129 - Vikramgad(ST)	Sub Divisional Officer, Jawhar
130 - Palghar (ST)	District Supply Officer, Palghar
131 - Boisar (ST)	Sub Divisional Officer, Palghar
132 - Nalasopara	Sub Divisional Officer, Wada
133 - Vasai	Sub Divisional Officer, Vasal
134 - Bhiwandi Rural (ST)	District Supply Officer, Collector Office, Thane
135 - Shahapur (ST)	Dy. Inspector General of Registration and Dy. Controller of Stamps, Konkan Division, Thane
136 - Bhiwandi West	Regional Officer, MIDC Thane-1, Thane
137 - Bhiwandi East	Sub Divisional Officer, Bhiwandi

TABLE-CON.

1	2
138 - Kalyan West	Deputy Collector and Land Survey Officer, CIDCO Bhavan CIDCO
139 - Murbad	Deputy Collector (EGS) , Thane
140 -Ambernath(SC)	Deputy Collector, SRA-2 Thane
141 - Ulhasnagar	Sub Divisional Officer, Ulhasnagar
142- Kalyan East	Deputy Collector (General), Collector Office, Thane
143- Dombivali	Joint District Registrar Class-I and Collector of stamps. Thane
144 - Kalyan Rural	Sub Divisional Officer, Kalyan
145 - Mira-Bhayandar	Regional Officer MIDC, Thane-2
146 - Ovala-Majiwada	Regional Officer (Mahape) MIDC, Thane
147 - Kopri-Pachpakhadi	Deputy Collector (Rehabilitation), Collectorate, Thane
148 - Thane	Sub Divisional Officer, Thane
149 - Mumbra-Kalwa	Special Land Acquisition Officer, Metro Center No. 3, Thane
150 - Airoli	Deputy Collector (Acquisition) Konkan Division, Commissioner Office, Navi Mumbai
151 - Belapur	Deputy Collector, SRA-3 Thane
152 - Borivali	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Borivaii, Rustamji Complex. Irani Wadi, BMC basement, Dahisar (W) Mumbai-68.
153 - Dahisar	Deputy Collector (Encroachment and Removal), Borivali-2
154 - Magathane	Deputy Collector and Special Land Acquisition Officer, Dharavi Redevelopment Project, Maharashtra Grih Nirman Bhavan, Bandra East Mumbai-400 051.
155 - Mulund	Deputy Collector (Encroachment/Removal) Mulund, Topiwala College Compound, Sarojini Naidu Road, Mulund (W), Mumbai-80
156 - Vikhroli	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bhandup, Topiwala College Compound, Sarojini Naidu Road, Mulund (W), Mumbai-80
157 - Bhandup West	Deputy Collector (Encroachment/Removal) Kurla, Topiwala College Compound, Sarojini Naidu Road, Mulund (W), Mumbai-80
158 - Jogeshwari East	Deputy Collector (Encroachment and Rehabilitation), Bandra-2
159 - Dindoshi	Collector of Stamps, Kurla, Administrative Building, Central Express Road, Chembur.
160- Kandivali East	Collector of Stamp, Taluka-Borivali, Mumbai Metropolitan Region Development Authority Bldg, Bandra-Kurla Complex, Bandra, Mumbai-51.
161 - Charkop	Deputy Collector (Encroachment and Removal), Malad-2
162 - Malad West	General Manager (Development), Maharashtra Industrial Development Corporation, Mumbai Suburban.
163 - Goregaon	General Manager (Land Acquisition), Maharashtra Industrial Development Corporation, Mumbai Suburban.

TABLE-CON.

1	2
164 - Versova	Additional District Deputy Collector, Mumbai Suburban District, Administrative Bldg, 9th Floor, Govt. Colony, Bandra (E), Mumbai-51
165 - Andheri West	Resident Deputy Collector, Office of the Additional Collector,(Encroachment/Removal), Western Suburbs, Administrative Bldg, Govt. Colony, Bandra (E), Mumbai-51
166 - Andheri East	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Maharashtra Grih Nirman Bhavan, Gr.Floor, Bandra (E), Mumbai-51
167 - Vile Parle	Deputy Collector (SGY), MSD, Office of the Collector MSD, Administrative Bldg, 9th Floor, Bandra (E), Mumbai-51
168 - Chandivali	Sub Divisional Officer, MSD, Nilkantha Building, Ground floor, A-wing , Kiroli road, Vidhya Viliar, Mumbai-400086
169 - Ghatkopar West	Deputy Collector (R&R) and Land Acquisition Officer, Mumbai Metropolitan Region Development Authority Bldg., 4th Floor Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051
170 - Ghatkopar East	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Ghatkopar, Topiwala College Compound, Sarojini Naidu Road, Mulund (W), Mumbai-80
171 - Mankhurd Shivaji Nagar	Collector of Stamp, Andheri Mumbai Metropolitan Region Development Authority Bldg., Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-51
172 - Anushakti Nagar	Deputy Collector, Slum Rehabilitation Authority, Maharashtra Grih Nirman Bhavan, 5th Floor, Bandra(E), Mumbai-51
173 - Chembur	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Chembur, Chembur Welfare Centre Bldg, 2nd Floor, Babasaheb Ambedkar Road, Ambedkar Nagar, R.Y,Thorat Marg, Chembur (W), Mumbai-89
174 - Kurla (SC)	Deputy Collector & Chief (R&R) Mumbai Metropolitan Region Development Authority Bldg, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-51
175 - Kalina	Sub Divisional Officer, MSD Administrative Building Govt. Colony 9th Floor, Bandra East Mumbai-400 051
176 - Vandre East	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bandra, Maharashtra Grih Nirman Bhavan, Bandra (E), Mumbai-51
177 - Vandre West	Special Land Acquisition Officer No. 4, Mumbai and MSD Administrative Building 9th Floor, Govt. Colony, Bandra East, Mumbai-400 051
178 - Dharavi (SC)	Collector of Stamps Enforcement 2, Central Library, ground floor, Fort, Mumbai-400 001
179 - Sion-Koliwada	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Dharavi Zone of Mumbai City District
180 - Wadala	Resident Deputy Collector (Encroachment/Removal), Eastern Suburb, Churchgate, Mumbai-400 020

TABLE-CON.

1	2
181 - Mahim	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Colaba Division, 4 th Floor, DD Building, Old Custom House, S.B. Marg, Fort, Mumbai-400 001.
182 - Worli	Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City, 3rd Floor, Old Custom House, Fort, Mumbai-400 001.
183 - Shivadi	Deputy Collector (Gen. Admn.) Mumbai City District Mumbai-1
184 - Byculla	Collector of Stamps, Mumbai City, 3rd Floor, Old Custom House, S. B. Marg, Fort, Mumbai-400 001.
185 - Malabar Hill	Collector of Stamps (Enforcement-I) Central library. Ground floor, Fort, Mumbai-1.
186 - Mumbadevi	Deputy Collector (city) SRA, Administrative Building, Anant Kanhekar Marg, Andheri East, Mumbai-400 060.
187 - Colaba	Dy. Director, Food and Civil Supply, Office of the Commissioner of Supply, Mantralaya Mumbai-400 032.
188 - Panvel	Sub Divisional Officer, Panvel
189 - Karjat	Sub Divisional Officer, Karjat
190 - Uran	Sp. Land Acquisition Officer, Metro Centre No.3, Panvel
191 - Pen	Sub Divisional Officer, Pen
192 - Alibag	Sub Divisional Officer, Alibag
193 - Shrivardhan	Sub Divisional Officer, Shrivardhan
194 - Mahad	Sub Divisional Officer, Mahad
195 - Junnar	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.4, Pune
196 - Ambegaon	Sub Divisional Officer, Junnar-Ambegaon
197 - Khed Alandi	Sub Divisional Officer, Khed (Rajgurunagar)
198 - Shirur	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.3, Pune
199 - Daund	Sub Divisional Officer, Daund-Purandar
200 - Indapur	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No. 1, Pune
201 - Baramati	Sub Divisional Officer, Baramati, Sub Division Baramati
202 - Purandar	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No. 17, Pune
203 - Bhor	Sub Divisional Officer, Bhor
204 - Maval	Sub Divisional Officer, Maval-Mulshi
205 - Chinchwad	Deputy Collector and Deputy CEO (Land) Pimpri-Chinchwad Navnagar Development Agency, Akurdi, Pune
206 - Pimpri (SC)	Deputy Collector and Competent Authority SRA-2 Pune and Pimpri Chinchwad area, Pune
207 - Bhosari	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No. 19, Pune
208 - Vadgaon Sheri	Regional Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation No. 1 (MIDC), Pune.

TABLE-CON.

1	2
209 - Shivajinagar	Deputy Collector and Food Grains Distribution Officer, Pune-1
210 - Kothrud	Deputy Inspector General of Registration (Computer), Pune
211 - Khadakwasala	Sub Divisional Officer, Haveli, Sub Division Pune
212 - Parvati	Deputy Collector and District Supply Officer, Pune
213 - Hadapsar	Deputy Collector and District Resettlement Officer, Pune
214 - Pune Cantonment (SC)	Deputy Collector and Special Land Acquisition Officer No.26, Pune
215 - Kasba Peth	Sub Divisional Officer, Pune, Sub Division Pune
216 - Akole (ST)	Deputy Collector (EGS), Ahmednagar
217 - Sangamner	Sub Divisional Officer, Sangamner
218 - Shirdi	Sub Divisional Officer, Shirdi
219 - Kopargaon	Special Land Acquisition Officer No.3, Ahmednagar
220 - Shrirampur(SC)	Sub Divisional Officer, Shrirampur
221 - Nevasa	Special Land Acquisition Officer, No.14, Ahmednagar
222 - Shevgaon	Sub Divisional Officer, Pathardi
223 - Rahuri	Deputy Collector (Resettlement), Ahmednagar
224 - Parner	Sub Divisional Officer, Shrigonda-Parner
225 - Ahmednagar City	Sub Divisional Officer, Ahmednagar
226 - Shrigonda	Deputy Collector Land Acquisition , No. 15, Ahmednagar
227 - Karjat Jamkhed	Sub Divisional Officer, Karjat
228 - Georai	District Supply Officer, Beed
229 - Majalgaon	Sub Divisional Officer, Majalgaon
230 - Beed	Sub Divisional Officer, Beed
231 - Ashti	Sub Divisional Officer, Patoda
232 - Kaij (SC)	Sub Divisional Officer, Ambejogai
233 - Parli	Sub Divisional Officer, Parli.
234 - Latur Rural	District Supply Officer, Latur
235 - Latur City	Sub Divisional Officer, Latur
236 - Ahmadpur	Sub Divisional Officer, Ahmadpur
237 - Udgir (SC)	Sub Divisional Officer, Udgir
238 - Nilanga	Sub Divisional Officer, Nilanga
239 - Ausa	Sub Divisional Officer, Ausa-Renapur
240 - Umarga (SC)	Sub Divisional Officer, Umarga
241 - Tuljapur	District Supply Officer, Osmanabad
242 - Osmanabad	Sub Divisional Officer, Osmanabad
243 - Paranda	Sub Divisional Officer, Bhoom

TABLE-CON.

1	2
244 - Karmala	Deputy Collector (EGS), Solapur
245 - Madha	Sub Divisional Officer, Madha Sub Division Kurduwadi
246 - Barshi	District Supply Officer, Solapur
247 - Mohol (SC)	Sp. Land Acquisition Officer, No. 07, Mohol
248 - Solapur City North	Sp. Land Acquisition Officer, No. 01, Solapur
249 - Solapur City Central	Sub Divisional Officer, Solapur Division Solapur
250 - Akkalkot	Deputy Collector Resettlement, Solapur
251 - Solapur South	Sub Divisional Officer, Solapur No. 2
252 - Pandharpur	Sub Divisional Officer, Pandharpur
253 - Sangole	Sub Divisional Officer, Mangalvedha
254 - Malshiras(SC)	Sub Divisional Officer, Malshiras (Akluj)
255 - Phaltan (SC)	Sub Divisional Officer, Phaltan
256 - Wai	Sub Divisional Officer, Wai
257 - Koregaon	Sub Divisional Officer, Koregaon
258 - Man	District Supply Officer, Man
259 - Karad North	Deputy Collector (Revenue), Satara
260 - Karad South	Sub Divisional Officer, Karad
261 - Patan	Sub Divisional Officer, Patan
262 - Satara	Sub Divisional Officer, Satara
263 - Dapoli	Sub Divisional Officer, Dapoli
264 - Guhagar	Sub Divisional Officer, Khed
265 - Chiplun	Sub Divisional Officer, Chiplun
266 - Ratnagiri	Sub Divisional Officer, Ratnagiri
267 - Rajapur	Sub Divisional Officer, Rajapur
268 - Kankavali	Sub Divisional Officer, Kankavali
269 - Kudal	Sub Divisional Officer, Kudal
270 - Sawantwadi	Sub Divisional Officer, Sawantwadi
271 - Chandgad	Sub Divisional Officer, Gadhinglaj
272 - Radhanagari	Sub Divisional Officer, Ajara-Bhudargad
273 - Kagal	Sub Divisional Officer, Radhanagari-Kagal
274 - Kolhapur South	Sub Divisional Officer, Karvir Sub Division Kolhapur
275 - Karvir	District Resettlement Officer, Kolhapur
276 - Kolhapur North	Deputy Collector (Revenue), Kolhapur
277 - Shahuwadi	Sub Divisional Officer, Panhala
278 - Hatkanangle(SC)	Deputy Collector (EGS), Kolhapur

TABLE-Contd.

1	2
279 - Ichalkaranji	Sub Divisional Officer, Ichalkaranji
280 - Shirol	District Supply Officer, Kolhapur
281 - Miraj (SC)	Deputy Collector (EGS), Sangli
282 - Sangli	District Supply Officer, Sangli
283 - Islampur	Sub Divisional Officer, Walwa Sub Division Islampur
284 - Shirala	Deputy Collector Resettlement, Sangli
285 - Palus-Kadegaon	Sub Divisional Officer, Kadegaon
286 - Khanapur	Sub Divisional Officer, Khanapur
287 - Tasgaon - Kavathe Mahankal	Sub Divisional Officer, Miraj
288 - Jat	Sub Divisional Officer, Jat

By Order,

A. N. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नवी दिल्ली 110 001, दिनांक 18 फरवरी 2019
29 माघ, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं.-434/महाराष्ट्र-वि.स./2019(1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं.-434/महाराष्ट्र-वि.स./2013(1), दिनांक 21 नवम्बर, 2013 के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी को उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम (1)	रिटर्निंग अधिकारी (2)
1 - अक्कलकुवा (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, तालोदा
2 - शहादा (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, शहादा
3 - नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, नन्दुरबार
4 - नवापुर (अ.ज.जा.)	जिला आपूर्ति अधिकारी, नन्दुरबार
5 - साक्री (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ई.जी.एस.), धुले
6 - धुले ग्रामीण	सब डिवीजनल अधिकारी, धुले डिवीजन, धुले
7 - धुले शहर	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन) नं. 1, धुले
8 - सिन्दखेडा	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), (एम.आई.पी.), धुले
9 - शिरपूर (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, शिरपूर
10 - चोपडा (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (पुनर्वास), जलगांव
11 - रावेर	सब डिवीजनल अधिकारी, फैजपूर
12 - भुसावल (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, भुसावल
13 - जलगांव शहर	सब डिवीजनल अधिकारी, जलगांव
14 - जलगांव ग्रामीण	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन नं. 1) अपर तापी परियोजना (हटनूर), जलगांव
15 - अमलनेर	सब डिवीजनल अधिकारी, अमलनेर
16 - एरन्दोल	सब डिवीजनल अधिकारी, एरन्दोल
17 - चालीसगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, चालीसगांव
18 - पाचोरा	सब डिवीजनल अधिकारी, पाचोरा

सारणी-चालू

(1)	(2)
19 - जामनेर	डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस), जलगांव
20 - मुक्ताईनगर	जिला आपूर्ति अधिकारी, जलगांव
21 - मलकापूर	सब डिवीजनल अधिकारी, मलकापूर
22 - बुलढाणा	सब डिवीजनल अधिकारी, बुलढाणा
23 - चिखली	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (एम.पी.), बुलढाणा
24 - सिंदखेड राजा	सब डिवीजनल अधिकारी, सिंदखेड राजा
25 - मेहकर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, मेहकर
26 - खामगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, खामगांव
27 - जलगांव (जमोद)	सब डिवीजनल अधिकारी, जलगांव (जमोद)
28 - आकोट	सब डिवीजनल अधिकारी, आकोट
29 - बालापुर	सब डिवीजनल अधिकारी, बालापुर
30 - अकोला (पश्चिम)	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), अकोला
31 - अकोला (पूर्व)	सब डिवीजनल अधिकारी, अकोला
32 - मुर्तिजापूर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, मुर्तिजापूर
33 - रिसोड	सब डिवीजनल अधिकारी, वाशिम
34 - वाशिम (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, मंगरुलपीर
35 - करंजा	सब डिवीजनल अधिकारी, करंजा
36 - धामणगांव रेलवे	सब डिवीजनल अधिकारी, चान्दुर रेलवे
37 - बडनेरा	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), अमरावती
38 - अमरावती	सब डिवीजनल अधिकारी, अमरावती
39 - तिवसा	सब डिवीजनल अधिकारी, तिवसा-भातकुली
40 - दर्यापुर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, दर्यापुर
41 - मेलघाट (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, धारणी
42 - अचलपुर	सब डिवीजनल अधिकारी, अचलपुर
43 - मोर्शी	सब डिवीजनल अधिकारी, मोर्शी
44 - आर्वी	सब डिवीजनल अधिकारी, आर्वी
45 - देवली	भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), वर्धा
46 - हिंगणघाट	सब डिवीजनल अधिकारी, हिंगणघाट
47 - वर्धा	सब डिवीजनल अधिकारी, वर्धा

सारणी-चालू

(1)	(2)
48 - काटोल	सब डिवीजनल अधिकारी, काटोल
49 - सावनेर	सब डिवीजनल अधिकारी, सावनेर
50 - हिंगणा	सब डिवीजनल अधिकारी, नागपूर ग्रामीण
51 - उमरेड (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, उमरेड
52 - नागपूर (दक्षिण पश्चिम)	सब डिवीजनल अधिकारी, नागपूर सिटी
53 - नागपूर (दक्षिण)	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), पेंच प्रोजेक्ट नं. 2, नागपूर
54 - नागपूर (पूर्व)	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), कनहोली नाला प्रोजेक्ट, नागपूर
55 - नागपूर (मध्य)	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), वी.आई.डी.सी. नं. 1, नागपूर
56 - नागपूर (पश्चिम)	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), पेंच प्रोजेक्ट नं. 1, नागपूर
57 - नागपूर उत्तर (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), नागपूर
58 - कामठी	सब डिवीजनल अधिकारी, मौदा
59 - रामटेक	सब डिवीजनल अधिकारी, रामटेक
60 - तुमसर	सब डिवीजनल अधिकारी, तुमसर
61 - भण्डारा (अ.जा.)	सहायक कलेक्टर, भण्डारा सब डिवीजन, जिला भण्डारा
62 - साकोली	सब डिवीजनल अधिकारी, साकोली
63 - अर्जुनी मोरगांव (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (सामान्य), गोंदिया
64 - तिरोरा	सब डिवीजनल अधिकारी, तिरोरा
65 - गोंदिया	सब डिवीजनल अधिकारी, गोंदिया
66 - आमगाव (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, देवरी
67 - आरमोरी (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, देसाईगंज
68 - गडचिरोली (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, गडचिरोली
69 - अहेरी (अ.ज.जा.)	सहायक कलेक्टर, अहेरी सब डिवीजन, जिला गडचिरोली
70 - राजूरा	सहायक कलेक्टर, राजूरा सब डिवीजन, जिला चन्द्रपुर
71 - चन्द्रपुर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, चन्द्रपुर
72 - बल्लारपूर	सब डिवीजनल अधिकारी, मूल
73 - ब्रम्हपूरी	सब डिवीजनल अधिकारी, ब्रम्हपूरी
74 - चिमुर्	सब डिवीजनल अधिकारी, चिमुर्
75 - वारोरा	सब डिवीजनल अधिकारी, वारोरा
76 - वणी	सब डिवीजनल अधिकारी, वणी
77 - रालेगाव (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, रालेगाव
78 - यवतमाल	सब डिवीजनल अधिकारी, यवतमाल

सारणी-चालू

(1)	(2)
79 - दिग्रस	सब डिवीजनल अधिकारी, दारव्हा
80 - आर्णी (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, केलापूर
81 - पुसद	सब डिवीजनल अधिकारी, पुसद
82 - उमरखेड (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, उमरखेड
83 - किनवट	सहायक कलेक्टर, किनवट सब डिवीजन, जिला नांदेड
84 - हदगाव	सब डिवीजनल अधिकारी, हदगाव
85 - भोकर	सब डिवीजनल अधिकारी, भोकर
86 - नांदेड उत्तर	डिप्टी कलेक्टर (ई.जी.एम.), नांदेड
87 - नांदेड दक्षिण	सब डिवीजनल अधिकारी, नांदेड
88 - लोहा	सब डिवीजनल अधिकारी, कन्धार
89 - नायगाव	सब डिवीजनल अधिकारी, धर्माबाद
90 - देगलुर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, बिलोली
91 - मुखेड	सब डिवीजनल अधिकारी, देगलुर
92 - बसमत	सब डिवीजनल अधिकारी, बसमत
93 - कलमनुरी	सब डिवीजनल अधिकारी, कलमनुरी
94 - हिंगोली	सब डिवीजनल अधिकारी, हिंगोली
95 - जिन्तुर	सब डिवीजनल अधिकारी, सैलू
96 - परभणी	सब डिवीजनल अधिकारी, परभणी
97 - गंगाखेड	सब डिवीजनल अधिकारी, गंगाखेड
98 - पाथरी	सब डिवीजनल अधिकारी, पाथरी
99 - परतुर	सब डिवीजनल अधिकारी, परतुर
100 - घनसावंगी	सब डिवीजनल अधिकारी, अम्बड
101 - जालना	सब डिवीजनल अधिकारी, जालना
102 - बदलापूर (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर एवं भूमि अर्जन अधिकारी एम.आई.डब्ल्यू.), जालना
103 - भोकरदन	सब डिवीजनल अधिकारी, भोकरदन
104 - सिल्लोड	सब डिवीजनल अधिकारी, सिल्लोड
105 - कन्नड	सब डिवीजनल अधिकारी, कन्नड
106 - फुल्मबरी	जिला आपूर्ति अधिकारी, औरंगाबाद
107 - औरंगाबाद मध्य	सब डिवीजनल अधिकारी, औरंगाबाद

सारणी-चालू

(1)	(2)
108 - औरंगाबाद पश्चिम (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ई.जी.एस.) कलेक्टर कार्यालय, औरंगाबाद
109 - औरंगाबाद पूर्व	जिला पुर्नवास अधिकारी, औरंगाबाद
110 - पैठण	सब डिवीजनल अधिकारी, पैठण-फुल्मबरी
111 - गंगापुर	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, औरंगाबाद
112 - वैजापुर	सब डिवीजनल अधिकारी, वैजापुर
113 - नांदगांव	डिप्टी कलेक्टर (ई.जी.एस.), नाशिक
114 - मालेगांव मध्य	सब डिवीजनल अधिकारी, मालेगांव
115 - मालेगाव बाहरी	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन) नं. 2, नाशिक
116 - बागलाण (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, बागलाण
117 - कलवण (अ.ज.जा.)	सहायक कलेक्टर, कलवण सब डिवीजन, जिला नाशिक
118 - चोंदवड	सब डिवीजनल अधिकारी, चोंदवड
119 - येवला	सब डिवीजनल अधिकारी, येवला
120 - सिन्नर	डिप्टी कलेक्टर (अर्जन) वैतरणा हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नाशिक
121 - निफाड	सब डिवीजनल अधिकारी, निफाड
122 - दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, दिन्डोरी
123 - नाशिक पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (प्रशासन), नाशिक
124 - नाशिक मध्य	सहायक कलेक्टर, नाशिक सब डिवीजन, जिला नाशिक
125 - नाशिक पश्चिम	जिला पुर्नवास अधिकारी, नाशिक
126 - देवलाली (अ.जा.)	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (एन.एच.पी.), नाशिक
127 - इगतपुरी (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, इगतपुरी
128 - डहाणू (अ.ज.जा.)	सहायक कलेक्टर, डहाणू सब डिवीजन, जिला पालघर
129 - विक्रमगड (अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, जव्हार
130 - पालघर (अ.ज.जा.)	जिला आपूर्ति अधिकारी, पालघर
131 - बोईसर(अ.ज.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, पालघर
132 - नालासोपारा	सब डिवीजनल अधिकारी, वाडा
133 - वसई	सब डिवीजनल अधिकारी, वसई
134 - भिवंडी ग्रामीण (अ.ज.जा.)	जिला आपूर्ति अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, ठाणे
135 - शहापूर (अ.ज.जा.)	उप महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टॉम्प, कोकण डिवीजन, ठाणे.
136 - भिवंडी पश्चिम	क्षेत्रिय अधिकारी, एम.आई.डी.सी., ठाणे-1, ठाणे

सारणी-चालू

(1)	(2)
137 - भिवंडी पूर्व	सब डिवीजनल अधिकारी, भिवंडी
138 - कल्याण पश्चिम	डिप्टी कलेक्टर एवं भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, सी.आई.डी.सी.ओ. भवन, सी.आई.डी.सी.ओ.
139 - मुरबाड	डिप्टी कलेक्टर (ई.जी.एस.), ठाणे
140 - अम्बरनाथ (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, एस.आर.ए.-2, ठाणे
141 - उल्हासनगर	सब डिवीजनल अधिकारी, उल्हासनगर
142 - कल्याण पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (सामान्य), कलेक्टर कार्यालय, ठाणे
143 - डोम्बीवली	संयुक्त जिला रजिस्ट्रार क्लास-1 और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, ठाणे.
144 - कल्याण ग्रामीण	सब डिवीजनल अधिकारी, कल्याण
145 - मीरा-भाईंदर	क्षेत्रीय अधिकारी, एम.आई.डी.सी., ठाणे-2.
146 - ओवला-माजीवडा	क्षेत्रीय अधिकारी (माहेप), एम.आई.डी.सी., ठाणे
147 - कोपरी-पचपाखडी	डिप्टी कलेक्टर (पुनर्वास), कलेक्टर, ठाणे
148 - ठाणे	सब डिवीजनल अधिकारी, ठाणे
149 - मुम्ना-कलवा	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, मेट्रो सेन्टर नं. 3, ठाणे
150 - ऐरोली	डिप्टी कलेक्टर (अर्जन) कोकण डिवीजन, आयुक्त कार्यालय, नवी मुंबई.
151 - बेलापुर	डिप्टी कलेक्टर, एस.आर.ए.-3, ठाणे
152 - बोरीवली	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल), बोरीवली, रुस्तमजी कॉम्प्लेक्स, ईरानी वाडी, बी.एम.सी. बेसमेन्ट, दहिसर (पश्चिम), मुंबई-68.
153 - दहिसर	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट एंड रिमुवल), बोरीवली-2
154 - मागाठणे	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन, बान्द्रा पूर्व, मुम्बई 400 051.
155 - मुलुन्ड	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल) मुलुन्ड, टोपीवाला कॉलेज कम्पाउन्ड, सरोजिनी नायडू रोड, मुलुन्ड (पश्चिम), मुम्बई-80.
156 - विक्रोली	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल) भान्डुप, टोपीवाला कॉलेज कम्पाउन्ड, सरोजिनी नायडू रोड, मुलुन्ड (पश्चिम), मुम्बई-80.
157 - भान्डुप पश्चिम	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल) कुर्ला, टोपीवाला कॉलेज कम्पाउन्ड, सरोजिनी नायडू रोड, मुलुन्ड (पश्चिम), मुम्बई-80.
158 - जोगेश्वरी पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट एंड रिमुवल) बान्द्रा-2.
159 - दिन्डोशी	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कुर्ला, प्रशासनिक भवन, सेन्ट्रल एक्सप्रेस रोड, चेम्बुर.

सारणी-चालू

(१)	(२)
160 - कान्दीवली पूर्व	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, तालुका-बोरीवली, मुम्बई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिल्डिंग, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा, मुम्बई-51.
161 - चारकोप	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट एंड रिमुवल), मलाड-2.
162 - मलाड पश्चिम	महाप्रबंधक (विकास), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुम्बई उपनगर.
163 - गोरेगांव	महाप्रबंधक (भूमि अर्जन), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुम्बई उपनगर.
164 - वरसोवा	अपर जिला उप कलेक्टर, मुम्बई उपनगरीय जिला, प्रशासनिक भवन, नवां तल, सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
165- अंधेरी पश्चिम	रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर का कार्यालय, (एनक्रोचमेंट / रिमुवल), वैस्टर्न उपनगर, प्रशासनिक भवन, सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
166 - अंधेरी पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल), महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन, भूतल, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
167 - विलेपार्ले	डिप्टी कलेक्टर (एस. जी. वाई), एम. एस. डी, कलेक्टर का कार्यालय एम. एस. डी. प्रशासनिक भवन, नवां तल, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
168 - चान्दीवली	सब डिवीजनल अधिकारी, एमएसडी, नीलकंठ भवन, भूतल, ए-विंग, किरौली रोड, विद्याविहार, मुम्बई 400 086.
169 - घाटकोपर पश्चिम	डिप्टी कलेक्टर (आर एंड आर) एवं भूमि अर्जन अधिकारी, मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण भवन, चतुर्थ तल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400 051.
170 - घाटकोपर पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल), घाटकोपर, टोपीवाला कॉलेज कंपाउंड, सरोजिनी नायडू रोड, मुलुन्ड (पश्चिम), मुम्बई-80.
171 - मानखुर्द शिवाजी नगर	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, अंधेरी मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
172 - अनुशक्ति नगर	डिप्टी कलेक्टर, स्लम रीहेबीलीटेशन अथारिटी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन, पांचवा तल, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई 51.
173 - चेम्बूर	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल), चेम्बूर, चेम्बूर कल्याण केन्द्रीय भवन, द्वितीय तल, बाबासाहेब अम्बेडकर रोड, अम्बेडकर नगर, आर. वाई थोरात मार्ग, चेम्बूर (पश्चिम), मुम्बई-89.
174 - कुर्ला (अ. जा)	डिप्टी कलेक्टर एवं मुख्य (आर एंव आर) मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.
175 - कलीना	सब डिवीजनल अधिकारी, एम. एस. डी. प्रशासनिक भवन, सरकारी कॉलोनी, नवां तल, बांद्रा पूर्व, मुम्बई-400 051.
176 - बान्द्रे पूर्व	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेंट/रिमुवल), बांद्रा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-51.

सारणी-चालू

(१)	(२)
177 - वान्द्रे पश्चिम	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नंबर 4, मुम्बई और एमएसडी प्रशासनिक भवन, नवां तल, सरकारी कॉलोनी, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400 051.
178 - धारावी (अ. जा.)	कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, प्रवर्तन-2, केन्द्रीय पुस्तकालय, भूमि तल, फोर्ट मुम्बई 400001.
179 - सायन कोलीवाडा	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेन्ट/रिमुवल), मुम्बई, सीटी जिले का धारावी जोन.
180 - वडाला	रेजिडेन्ट डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेन्ट/रिमुवल), पूर्वी उपनगर, चर्चगेट, मुम्बई 400 020.
181 - माहिम	डिप्टी कलेक्टर (एनक्रोचमेन्ट/रिमुवल), कोलाबा डिवीजन, चौथा तल, डीडी बिल्डिंग, ओल्ड कस्टम हाऊस, एसबी मार्ग, फोर्ट, मुम्बई 400 001.
182 - वरली	डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन), मुम्बई सिटी, तीसरा तल, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुम्बई-400 001.
183 - शिवडी	डिप्टी कलेक्टर (सामान्य प्रशासन) मुम्बई सिटी जिला, मुम्बई-1.
184 - बायखला	स्टॉम्प कलेक्टर, मुम्बई सिटी, तीसरा तल, ओल्ड कस्टम हाऊस, एस. बी. मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400 001.
185 - मलबार हिल	कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प (प्रवर्तन-1), केन्द्रीय पुस्तकालय, भूमि तल, फोर्ट, मुम्बई-1.
186 - मुम्बादेवी	डिप्टी कलेक्टर (सिटी) एस. आर. ए. प्रशासनिक भवन, अनंत कान्हेकर मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400 060.
187 - कोलाबा	उप निदेशक, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, आपूर्ति आयुक्त का कार्यालय, मंत्रालय, मुम्बई-400 032.
188 - पनवेल	सब डिवीजनल अधिकारी, पनवेल
189 - करजत	सब डिवीजनल अधिकारी, करजत
190 - उरण	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, मेट्रो केंद्र नं. 3, पनवेल.
191 - पेण	सब डिवीजनल अधिकारी, पेण
192 - अलिबाग	सब डिवीजनल अधिकारी, अलिबाग
193 - श्रीवर्धन	सब डिवीजनल अधिकारी, श्रीवर्धन
194 - महाड	सब डिवीजनल अधिकारी, महाड
195 - जुन्नर	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं.-4. पुणे
196 - आम्बेगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, जुन्नर-आम्बेगांव
197 - खेड आलन्दी	सब डिवीजनल अधिकारी, खेड (राजगुरुनगर)
198 - शिरूर	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 3, पुणे

सारणी-चालू

(१)	(२)
199 - दौंड	सब डिवीजनल अधिकारी, दौंड-पुरन्दर
200 - इन्दापुर	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 1, पुणे
201 - बारामती	सब डिवीजनल अधिकारी, बारामती, सब डिवीजन, बारामती
202 - पुरन्दर	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 17, पुणे
203 - भोर	सब डिवीजनल अधिकारी, भोर
204 - मावल	सब डिवीजनल अधिकारी, मावल-मुलशी
205 - चिंचवड	डिप्टी कलेक्टर एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भूमि), पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास एजेंसी, अकुर्डी, पुणे
206 - पिंपरी (अ. जा.)	डिप्टी कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी, एस. आर. ए. 2, पुणे और पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे
207 - भोसरी	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 19, पुणे
208 - वडगांवशेरी	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम नं. 1 (एम. आई. डी. सी.), पुणे
209 - शिवाजीनगर	डिप्टी कलेक्टर और खाद्यान्न वितरण अधिकारी, पुणे-1
210 - कोथरुड	उप महानिरीक्षक, पंजीकरण (कंप्यूटर), पुणे
211 - खडकवासला	सब डिवीजनल अधिकारी, हवेली, सब डिवीजन, पुणे
212 - पर्वती	डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, पुणे
213 - हडपसर	डिप्टी कलेक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी, पुणे
214 - पुणे छावनी (अ. जा.)	डिप्टी कलेक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं.-26, पुणे
215 - कसबा पेठ	सब डिवीजनल अधिकारी, पुणे सब डिवीजन, पुणे
216 - अकोले (अ. ज. जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस), अहमदनगर
217 - संगमनेर	सब डिवीजनल अधिकारी, संगमनेर
218 - शिरडी	सब डिवीजनल अधिकारी, शिरडी
219 - कोपरगांव	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 3, अहमदनगर
220 - श्रीरामपुर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, श्रीरामपुर
221 - नेवासा	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 14, अहमदनगर
222 - शेवगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, पाथरडी
223 - राहुरी	डिप्टी कलेक्टर (रिसेटलमेन्ट), अहमदनगर
224 - पारनेर	सब डिवीजनल अधिकारी, श्रीगोन्दा-पारनेर
225 - अहमदनगर शहर	सब डिवीजनल अधिकारी, अहमदनगर

सारणी-चालू

(१)	(२)
226 - श्रीगोन्दा	डिप्टी कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण नं.-15, अहमदनगर
227 - करजत जामखेड	सब डिवीजनल अधिकारी, करजत
228 - गेवराई	जिला आपूर्ति अधिकारी, बीड
229 - माजलगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, माजलगांव
230 - बीड	सब डिवीजनल अधिकारी, बीड
231 - आष्टी	सब डिवीजनल अधिकारी, पाटोदा
232 - कैज (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, अम्बाजोगाई
233 - परली	सब डिवीजनल अधिकारी, परली
234 - लातुर ग्रामीण	जिला आपूर्ति अधिकारी, लातुर
235 - लातुर शहर	सब डिवीजनल अधिकारी, लातुर
236 - अहमदपुर	सब डिवीजनल अधिकारी, अहमदपुर
237 - उदगीर (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, उदगीर
238 - निलंगा	सब डिवीजनल अधिकारी, निलंगा
239 - औसा	सब डिवीजनल अधिकारी, औसा रेनापुर
240 - उमरगा (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, उमरगा
241 - तुलजापुर	जिला आपूर्ति अधिकारी, उस्मानाबाद
242 - उस्मानाबाद	सब डिवीजनल अधिकारी, उस्मानाबाद
243 - परान्डा	सब डिवीजनल अधिकारी, भूम
244 - करमाला	डिप्टी कलेक्टर (ई. जी. सी.), शोलापुर
245 - माढा	सब डिवीजनल अधिकारी, माढा सब डिवीजन कुर्डुवाडी
246 - बारशी	जिला आपूर्ति अधिकारी, शोलापुर
247 - मोहोल (अ. जा.)	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 07, मोहोल
248 - शोलापुर शहर उत्तर	विशेष भूमि अर्जन अधिकारी नं. 1, शोलापुर
249 - शोलापुर शहर मध्य	सब डिवीजनल अधिकारी, शोलापुर डिवीजन शोलापुर
250 - अक्कलकोट	डिप्टी कलेक्टर रिसेटलमेंट, शोलापुर
251 - शोलापुर दक्षिण	सब डिवीजनल अधिकारी, शोलापुर नं. 2
252 - पंढरपुर	सब डिवीजनल अधिकारी, पंढरपुर
253 - सांगोले	सब डिवीजनल अधिकारी, मंगलवेधा
254 - मालशिरस (अ. जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, मालशिरस (अकलूज)
255 - फलटण (अ. जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, फलटण
256 - वाई	सब डिवीजनल अधिकारी, वाई
257 - कोरेगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, कोरेगांव
258 - माण	जिला आपूर्ति अधिकारी, माण
259 - कराड उत्तर	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), सतारा
260 - कराड दक्षिण	सब डिवीजनल अधिकारी, कराड

सारणी—समाप्त

(१)	(२)
261 - पाटण	सब डिवीजनल अधिकारी, पाटण
262 - सतारा	सब डिवीजनल अधिकारी, सतारा
263 - दापोली	सब डिवीजनल अधिकारी, दापोली
264 - गुहागर	सब डिवीजनल अधिकारी, खेड
265 - चिपलुण	सब डिवीजनल अधिकारी, चिपलुण
266 - रत्नागिरी	सब डिवीजनल अधिकारी, रत्नागिरी
267 - राजापूर	सब डिवीजनल अधिकारी, राजापूर
268 - कणकवली	सब डिवीजनल अधिकारी, कणकवली
269 - कुडाल	सब डिवीजनल अधिकारी, कुडाल
270 - सावंतवाडी	सब डिवीजनल अधिकारी, सावंतवाडी
271 - चंदगड	सब डिवीजनल अधिकारी, गडहिंगलज
272 - राधानगरी	सब डिवीजनल अधिकारी, अजरा-भूदरगड
273 - कागल	सब डिवीजनल अधिकारी, राधानगरी-कागल
274 - कोल्हापुर दक्षिण	सब डिवीजनल अधिकारी, करवीर सब डिवीजन कोल्हापुर
275 - करवीर	जिला रिसेटलमेंट अधिकारी, कोल्हापुर
276 - कोल्हापुर उत्तर	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), कोल्हापुर
277 - शाहुवाडी	सब डिवीजनल अधिकारी, पन्हाला
278 - हातकणंगले (अ. जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ई. जी. एस.) कोल्हापुर
279 - इचलकरंजी	सब डिवीजनल अधिकारी, इचलकरंजी
280 - शिरोल	जिला आपूर्ति अधिकारी, कोल्हापुर
281 - मिरज (अ. जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस), सांगली
282 - सांगली	जिला आपूर्ति अधिकारी, सांगली
283 - इस्लामपुर	सब डिवीजनल अधिकारी, वालवा सब डिवीजन, इस्लामपुर
284 - शिराला	डिप्टी कलेक्टर रिसेटलमेंट, सांगली
285 - पलुस कडेगांव	सब डिवीजनल अधिकारी, कडेगांव
286 - खानापूर	सब डिवीजनल अधिकारी, खानापूर
287 - तासगाव-कवठे महाकाल	सब डिवीजनल अधिकारी, मिरज
288 - जत	सब डिवीजनल अधिकारी, जत

आदेश से,

ए. एन. दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

क्रमांक : जीईएन-२०१९-प्र.क्र.४१/१९/३३

सामान्य प्रशासन विभाग,

मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
- (२) विभागीय आयुक्त, सर्व.
- (३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (४) उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व.
- (५) विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत).
- (६) निवडनस्ती.

शुभा बोरकर,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.